



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY -

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

स 17]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2012/पौष 27, 1933

No 17]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2012/PAUSA 27, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2012

स. 1/2012-सीमा-शुल्क (एसजी)

सा का नि 29(अ).—जबकि, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 2917 35 00 के अतर्गत आने वाले थालिक एनहाइड्राइड के आयात के संदर्भ में महानिदेशक (रक्षोपाय), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 23 सितम्बर, 2011 सा का नि 719(अ), तारीख 23 सितम्बर, 2011 द्वारा प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्ष में इस निर्णय पर पहुंचे थे कि थालिक एनहाइड्राइड के संचालित आयातों से थालिक एनहाइड्राइड के घरेलू उद्योग के लिए बाजार विघटन का खतरा पैदा हो गया था और भारत में थालिक एनहाइड्राइड के आयातों पर अनतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना अनिवार्य हो गया था।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के नियम 10 और 14 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक (रक्षोपाय) के उक्त जाच पर विचार करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 2917 35 00 के अतर्गत आने वाले थालिक एनहाइड्राइड पर, जब भारत में आयात किया जाए, 10 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से, रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करती है।

2 इस अधिसूचना द्वारा अधिरोपित रक्षोपाय शुल्क इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 6 माह तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगा। (यदि उसका खंडन अधिकांत और संशोधन न किया जाए)।

[फा स 354/1/2012-टीआरयू]

सजीव कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2012

No. 1/2012-Customs (SG)

G.S.R. 29(E).—Whereas, in the matter of import of Phthalic anhydride, falling under tariff item 2917 35 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Act), the Director General (Safeguard), in preliminary findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide

number G S R 719(E), dated the 23rd September, 2011, had come to the conclusion that increased imports of Phthalic anhydride into India had caused and threatened to cause further serious injury to the domestic producers of Phthalic anhydride and it necessitates to impose provisional safeguard duty on imports of Phthalic anhydride into India,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 8B of the said Act, read with rules 10 and 14 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, the Central Government after considering the said findings of the Director General (Safeguards), hereby imposes on Phthalic anhydride, falling under tariff item 2917 35 00 of the First Schedule to the said Act, when imported into India, a safeguard duty at the rate of 10% *ad valorem*

2 The safeguard duty imposed under this notification shall be effective for a period of 180 days (unless revoked, superseded or amended earlier) from the publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 354/1/2012-TRU]

SANJEEV KUMAR SINGH, Under Secy

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th January, 2012

G.S.R. 30(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2012-Customs (ADD), dated the 16th January, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G S R 21(E), dated the 16th January, 2012,—

for the figures “390042210”, read “39042210”

[F. No. 354/88/2004-TRU (Pt-I)]

SANJEEV KUMAR SINGH, Under Secy

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2012

सं 04/2012-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 31(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2012-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (1), सा.का.नि. 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त सारणी में,—

- (1) प्रारंभिक पैराग्राफ में, परन्तुक्त में, खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—  
“(ड) उक्त सारणी में क्रम संख्या 491ग के सामने विनिर्दिष्ट माल या 16 जनवरी, 2012 से पहले”,
- (2) सारणी में, क्रम संख्या 491ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“491ग	4001 10	सभी माल	₹ 49 प्रति किलोग्राम	—	112”

- (3) शर्त सं. 111 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“112 यदि प्रति किलोग्राम सगणित राशि दर मूल्यानुसार 70 प्रतिशत, ₹ 49 प्रति किलोग्राम से अधिक है”

[फा. सं 354/143/2010-टीआरयू]

मजीद कुप्पा सिंह, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना 21/2002-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (1) द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं 1/2012-सीमा-शुल्क, तारीख 16 जनवरी, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सा.का.नि. 22(अ) तारीख 16 जनवरी, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया था।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2012

## No. 04/2012-Customs

**G.S.R. 31(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 118(E) dated the 1st March, 2002, namely —

In the said notification,—

- (1) in the opening paragraph, in the proviso, after clause (m), the following clause shall be inserted, namely —

“(n) the goods specified against serial number 491C of the said Table on or before the 16th day of January, 2013”,

- (2) in the Table, after S No. 491B and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“491C	4001 10	All goods-	₹49/- per kg	—	112”

- (3) after condition No. 111 and the entry relating thereto, the following shall be inserted, namely —

“112 If the duty amount per kilogram calculated at the rate of 70% *ad valorem*, is more than ₹ 49/-.”

[F No. 354/143/2010-TRU]

SANJEEV KUMAR SINGH, Under Secy

**Note :—**The principal notification No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002 and was last amended *vide* notification No. 1/2012-Customs, dated the 16th January, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 22(E), dated the 16th January, 2012